

# ELECTION 2020

Call:  
1-888-API-VOTE  
(274-8683)

Bilingual assistance is available in English, Mandarin (普通话/普通话),  
Cantonese (廣東話/广东话), Korean (한국어), Vietnamese (Tiếng Việt),  
Tagalog, Urdu (اردو), Hindi (हिन्दी), and Bengali (বাংলা).



## COVID-19 & मतदान: सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम आदतें

(सीडीसी के मार्गदर्शन के आधार पर, "चुनाव के मतदान केंद्र और मतदाताओं के सोच-विचार के लिए" @  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html>)

आपको आपके क्षेत्र में उपलब्ध मतदान के विकल्पों, जैसे कि डाक द्वारा मतदान, जो सम्पर्क में आने से बचाते हैं, को समझना और मानना चाहिए। आखिरकार, मतदान का कौन-सा तरीका आपके लिए सर्वोत्तम होगा, इसे चुनने का विकल्प आपके पास है। यदि आप पूर्व-मतदान या मतदान दिवस के दौरान स्वयं उपस्थित होकर मतदान करना चुनते हैं तो मतदान के दौरान निम्नलिखित सर्वोत्तम आदतें आपको सुरक्षित बने रहने में आपकी मदद कर सकती हैं।

### भीड़भाड़ से बचें

- यदि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है तो पहले मतदान करें। [<https://www.usvotefoundation.org/vote/state-elections/state-voting-laws-requirements.htm>] वेबसाइट पर जाकर जाँच करें।
- यदि सम्भव हो तो गैर-व्यस्त समय, जैसे कि सुबह 11-12 बजे के करीब के समय में, मतदान करें।
- यदि झाड़व करके मतदान करने जा रहे हैं और आपको समय इजाजत देता है तो कार से ही मतदाता की पंक्ति का निरीक्षण करें और जब यह छोटी हो तो इसमें शामिल हो जाएँ।

### मतदान में तैयारी के साथ आँ

- अपने मतदान केंद्र और वहां होने वाली जरूरतों की समीक्षा पहले ही कर लें क्योंकि COVID-19 के कारण वे बदले जा सकते हैं।
- मतदान केंद्र पर जाने से पूर्व अपने मतदाता पंजीकरण की जानकारी सही है, इसकी सत्यता की पुष्टि कर लें। यदि आप एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ पूर्व मतदान या मतदान दिवस के दौरान अपने मतदान केंद्र पर पंजीकरण सम्भव है तो मतदान स्थान पर पहुँचने से पहले मतदाता के पंजीकरण का प्रपत्र पूरा करने का प्रयास करें।
- मतदान केंद्र पर देरी से बचने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपके पास राज्य द्वारा अपेक्षित सभी जरूरी दस्तावेजों, जैसे कि एक मान्य फोटो पहचान पत्र, उपलब्ध हो।
- मतदान केन्द्र पर अपने मतदान करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए घर पर एक नमूना मतपत्र को पूरा भर लें या इसकी समीक्षा करें। [नमूना मतपत्र के लिए [https://ballotpedia.org/Sample\\_Ballot\\_Lookup](https://ballotpedia.org/Sample_Ballot_Lookup) जाँच करें।] नोट करें, मतदान अधिकार अधिनियम के धारा 203 के अन्तर्गत, शामिल क्षेत्र को नमूना मतपत्र को शामिल भाषा(ओं) में अनूदित कर प्रदान करना चाहिए।
- अपने साथ काली स्याही वाले कलम लाएँ।
- मतदान मशीनों के टच स्क्रीन पर इस्तेमाल करने के लिए एक स्टाइलस या समान प्रकार की वस्तु लाएँ। इस्तेमाल से पहले मतदान कर्मी से जाँच करा लें।

### स्वस्थ आदतों को अपनाएँ

- मतदान केंद्र में प्रवेश करने के पहले और लौटने के बाद अपने हाँथों को साफ करें।
- मास्क पहनें।
- मतदान केंद्र में होने के दौरान, कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल से बने, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का लगातार, खासकर बार-बार कई लोगों के द्वारा छुए गए सतहों, जैसे कि दरवाजे का हैंडल या मतदान मशीन को छूने के बाद, उपयोग करें।
- भले ही आप और अन्य लोग मास्क पहनें हैं, दूसरों से कम से कम 6 फीट (लगभग 2 हाँथ की दूरी) की दूरी बनाए रखें।
- मतदान उपकरणों को खुद से कीटाणु-रहित या साफ न करें। इलेक्ट्रॉनिक मतदान उपकरण कीटाणुनाशकों अथवा क्लीनर से खराब हो सकते हैं। यदि आप मतदान उपकरण का इस्तेमाल करने के पहले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं तो उपकरण को खराब होने से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपका हाँथ पूरी तरह से सूखा हो। मतदान उपकरण के इस्तेमाल के बाद हाँथों को धोएँ या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।

[www.advancingjustice-aaajc.org/election2020](http://www.advancingjustice-aaajc.org/election2020)